

केन्द्रीयविद्यालयहैदराबादविश्वविद्यालय

KENDRIYA VIDYALAYA UNIVERSITY OF HYDERABAD CAMPUS, HYD: 46
(under Ministry of Human Resource, Govt. of India)

Telephone No:040 23012200, 23012244

www. kvhcu.org

Email:kvuohyd@gmail.com

Date: 17- 07-2020

F.No.21-331/KV UOH/2020-2021

CORRIGENDUM

ADMISSION NOTICE

2020-2021

Application forms are invited for Registration for Admission for classes from V to IX against the available vacancies. The Registration Form can be downloaded from the school website "hyderabadcu.kvs.ac.in" Form filled in all respects with signature of the parent should be scanned along with the scanned copies of required documents and should be mailed to admission.kvuoh@gmail.com

In no case parent / guardian/ ward should visit the Vidyalaya .

1. Submission of Registration forms for class V to IX : 20-07-2020 to 25-07-2020

(Latest by 25th July 2020 till 4 pm

form to be

submitted to given

email- id)

2. Declaration of selected List : 29-07-2020 at 4.00 PM

3. Admissions from Class V to IX : 30-07-2020 to 07-08-2020

<u>Documents to be submitted at the time of Registration</u>: (All documents to be scanned and mailed to given email –id)

- 1. Self-Attested Photocopy of Date of Birth Certificate issued by competent authority.
- 2. Self-Attested Photocopy of Caste Certificate (in case of SC/ST/OBC)
- 3. Residential Proof
- 4. Latest Service Certificate of the Parent(In case of Govt., employees.)
- 5. Single girl child affidavit if applicable.

For Fee structure, age eligibility and Admission Guidelines visit "www.kvsangathan.nic.in"

Help desk contact No. -: 9643806797 (Timing 9:00am to 2:40pm)

(PRINCIPAL)

कार्यालय प्रयोग के लिए / FOR OFFICE USE ONLY

2200000 72000 340000 1300000	1010	01,100	OUL O	1	
	RE	G NO.			
क्रम सं. / S.No.	Dept.	Cat	No.of Trs.	Gen/SC/ST/DA BPL/OBC/EWS	sgc
अभिभावक व To be fill पंजीकरण के लिए कक्षा / Registration for class 1. विद्यार्थी का पूरा नाम (रपष्ट शब्दों में) Name of child in full (in Capital letters)	के द्वारा भरे ए led by the pa	rent		of th	ograph e child port size)
लिंग/Sex पुरुष/Male स्त्री/F	emale	तृती	य लिंग/	Third Gender	
शब्दों में ∕ In words	देन / Day	मास / ।	Months	वर्ष / Yea	
3.बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित) Blood Group of the child (with Rh factor)					
	विक रूप से बी हम्पार वर्ग EWS हिं /ओ. बी. स	गे. से ∕ 3 करें।			केविस KVS ी पी एल
माता-पिता का विवरण / Details of Mother/ Father	माता / N	lother		पिता / Fat	her
(i) नाम(स्पष्ट शब्दों में) / Name (in Capital letters)		ARIDOS N			
(ii) राष्ट्रीयता / Nationality					1
(iii) यवसाय / Occupation					
(w) कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष					10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Name of Office and full address and telephone number			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	
THE COURSE CONTROL OF THE CANADA CONTROL OF THE CON					

(vi) विद्यालय से आवास की दूरी (कि.मी में)।	माला / Mother	पिला / Father
दूरी के लिए माता-पिता / अभिभावक का	miny another	Patner Patner
संपथ-पत्र मान्य है। आवास प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।		
Distance from KV(in km)		
Undertaking from parents is acceptable for distance. Proof of Residence is		
compulsory.		1
(vii) मूल वेतन / Basic Pay		
(viii) 31-3-20 तक पिछले 7 वर्षों में		
स्थानांतरणों की संख्या		
No.of transfers during last 7 years as on 31-3-20		
(ix) माता- पिता की श्रेणी केन्द्रीय सरकार /		
केन्द्रीय सरकार के स्वायता संस्थान/		
राज्य सरकार/राज्य सरकार के स्वायता		
संस्थान / अन्य Category of the Parent belongs to		
for Central Govt (write 1)		
for Central Autonomous bodies/PSUs (write 2) for State Govt (write 3)		
for State Govt Autonomous /PSUs (write 4)		
(x) कर्मचारी कोड यदि है तो / Employee Code (if any)		
		Ulsas an
मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि I certify that the above entries are true to the b	est of my knowledge. माता /	पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर
I certify that the above entries are true to the b	est of my knowledge. माता / Signatur	re of Mother / Father / Guardian
दिनाक / Date:	est of my knowledge. माता / Signatui पूरा नाम / Full Name	re of Mother / Father / Guardian
दिनांक / Date: सेवा प्र	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name	re of Mother / Father / Guardian
दिनाक / Date:	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.)	re of Mother / Father / Guardian
दिनाक / Date: सेवा प्र (केन्द्रीय सरक	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name गमाण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.)	re of Mother / Father / Guardian
दिनांक / Date: सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.)	re of Mother / Father / Guardian
देनाक / Date: सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name गाण-पत्र / SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा
सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार बल / एन.एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्री- पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित हैं,	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name गाण-पत्र / SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा
दिनाक / Date: सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार बल / एन एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्री पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय है ।	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथव के नियमित कर्मचारी हैं तथा	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
दिनाक / Date: सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार बल / एन एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्री पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय है ।	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथव के नियमित कर्मचारी हैं तथा	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार बल / एन एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई. एस.एफ / केन्द्री पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित हैं, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt.	est of my knowledge. Pint / Signatur पूरा नाम / Full Name Pint / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत संस्था / अथ्य के नियमित कर्मचारी हैं तथा	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार बल / एन एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई. एस.एफ / केन्द्रीः पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित हैं, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt. s working as Regular Employee in the office / Minist	est of my knowledge. Pint / Signatur पूरा नाम / Full Name Pint / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं /
सेवा प्र किन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्री-पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय है । Certified that Shri/Smt. s working as Regular Employee in the office / Minist Employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/Si	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा ry of	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / He/She is a Regular
सेवा प्र किन्द्रीय सरक क्रियाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /एन.एस.जी. /एस.पी.जी. /सी.आई.एस.एफ /केन्द्री.पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt. s working as Regular Employee in the office / Minist Employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/Si	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा ry of	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / He/She is a Regular
सेवा प्र किन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्री-पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय है । Certified that Shri/Smt. s working as Regular Employee in the office / Minist Employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/Si	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा ry of	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / He/She is a Regular
सेवा प्र किन्द्रीय सरक क्रिमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /एन.एस.जी. /एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ / केन्द्री.पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय है । Certified that Shri/Smt. s working as Regular Employee in the office / Minist Employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/Sidendertaking fully financed/partially financed by Central anywhere in India.	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा ry of	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / He/She is a Regular
सेवा प्र किन्द्रीय सरक क्रियाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /एन.एस.जी. /एस.पी.जी. /सी.आई.एस.एफ /केन्द्री.पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt. s working as Regular Employee in the office / Minist Employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/Si	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र / SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे स्था सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा PG/CISF/Central Govt./Auto	re of Mother / Father / Guardian PIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानंतरणी हैं / He/She is a Regular pinomous Body/Public Sector e non transferable / transferable
सेवा प्र (केन्द्रीय सरक प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्री. पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय है । Certified that Shri/Smt	est of my knowledge. Pint / Signatur पूरा नाम / Full Name Pint / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा PG/CISF/Central Govt./Auto Govt. and his/her services are कार्यालय (नाम, पद और	रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानंतरणी हैं / He/She is a Regular onomous Body/Public Sector a non transferable / transferable अध्यक्ष के हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर सहित)
सेवा प्र किन्द्रीय सरक क्रिमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय /एन.एस.जी. /एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ / केन्द्री.पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त-पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय है । Certified that Shri/Smt. s working as Regular Employee in the office / Minist Employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/Sidendertaking fully financed/partially financed by Central anywhere in India.	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा PG/CISF/Central Govt./Auto Govt. and his/her services are कार्यालय (नाम, पद और Signature	re of Mother / Father / Guardian FIFICATE रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / He/She is a Regular promous Body/Public Sector a non transferable / transferable अध्यक्ष के हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर सहित) of the Head of the Office
सेवा प्र किन्द्रीय सरक ्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्याल / एन.एस.जी. / एस.पी.जी. / सी.आई.एस.एफ / केन्द्री.पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार से वित्त—पोषित है, पूर्ण भारत में कहीं भी स्थनांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt	est of my knowledge. माता / Signatur पूरा नाम / Full Name माण-पत्र /SERVICE CERT र / Central Govt.) रित हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय य सरकार स्वायत्त संस्था / अथा के नियमित कर्मचारी हैं तथा PG/CISF/Central Govt./Auto Govt. and his/her services are कार्यालय (नाम, पद और Signature	रिजर्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा वा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उनकी सेवा अस्थानंतरणी हैं / He/She is a Regular onomous Body/Public Sector a non transferable / transferable अध्यक्ष के हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर सहित)

the office/ Ministry of	प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानातरणी हैं / पूर्ण राज्य में कही भी स्थानाररणीय हैं। Certified that Shri/Smt	प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मत्रालय में नियमित कर्मधारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानातरणी हैं / पूर्ण राज्य में कारी भी स्थानातरणीय हैं। Certified that Shri/Smit			ामाण–पत्र ∕SERV				
कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / पूर्ण राज्य में कारी से स्थानांतरणीय हैं। Certified that Shri/Smt	कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मधारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणी हैं / पूर्ण राज्य में कारी भी रथनांतरणीय हैं। Certified that Shri/Smt	कार्यालय / मंत्रालय में निर्यामित कर्मधारी के रूप में कार्यरत हैं। तथा उनकी सेवा अख्यानांतरणी हैं /पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय हैं। Certified that Shri/Smt	rm6- 0- 4 0 0		राज्य सरकार /	State Go	ovt.)		
कहीं भी रथनांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt	कहीं भी स्थानांतरणीय है । Certified that Shri/Smt	कहीं भी स्थानांतरणीय हैं । Certified that Shri/Smt			The same of the sa		150.00	W 38000	Co. 12 19-1
Certified that Shri/Smt	Certified that Shri/Smt and his/her services are non transferable the office/ Ministry of	Certified that Shri/Smt is Permanentiv Working in the office/ Ministry of and his/her services are non transferable anywhere in State. Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of the Head of the Office Signature of the Office Signature of the Office Signat	कायालय/मत्रालय में नियमित	कर्मचारी के	रूप में कार्यरत है	। तथा उ	नकी सेवा	प्रस्थानातरणी हैं	/पूर्ण राज्य में
the office/ Ministry of	the office/ Ministry of	the office/ Ministry of	Charles and Charle						
Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय को मोहर सहित) Signature of the Head of the Office (नाम, पद और कार्यालय को मोहर सहित) Signature of the Head of the Office (अक्षेत Name, Designation and Office stamp) Possible Wath Name, Designation and Office stamp	Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम, पद और कार्यालय को मीहर सहित) Signature of the Head of the Office With Name, Designation and Office stame Tomplete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका दिवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to nother, the details of which are given as under :- (ति कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम हिम्म कार्यालय / यूनिट स्थान हिम्म कार्यालय / यूनिट स्थान हिम्म ह	Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय आध्यक्ष के हस्ताक्षर देनांक/ Date							
Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of the Head of the Office (नाक / Date	Round Office Seal (स्थान / Place	Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताकार (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of the Head of the Office With Name, Designation and Office stamp Tomplete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आ.3. 2016 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (आको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं (Name) (rank/ designation office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to nother, the details of which are given as under:	the office/ Ministry of				and his/f	ner services are	non transferable
Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of the Head of the Office स्थान / Place कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाव संख्या Complete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है। (Name) (office). do hereby certify that during the past 7 years (up to the details of which are given as under: (ताक / पदनाम (कार्यालय / यूनिट स्थान (अको व शब्द में स्थान हिनाक / Date) (ताक / To	Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of the Head of the Office With Name, Destanation and Office stamp ormplete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं (Name) (rank/ designation to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: (स. कार्यालय / यूनिट स्थान रकं/ पदनाम हिंग प्रमाण क्रिक / पदनाम हिंग प्रमाण क्रा क्रिक / पदनाम हिंग हिंग हिंग हिंग हिंग हिंग हिंग हिंग	Round Office Seal (स्थान / Place	/ transferable anywhere in Stat	te.					
Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of the Head of the Office With Name, Designation and Office stamp कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या Complete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आको व शब्द में थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: (सत्ताक / Date) (सत्ताक / Date) (सत्ताक / Date) (सत्ताक / To) (स	Round Office Seal (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित) Signature of the Head of the Office With Name. Designation and Office stame omplete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आको व शब्द में थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं (Name) (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: (स. कार्यालय यूनिट स्थान रेंक / पदनाम हिंग कार्यालय यूनिट स्थान पर में कार्यालय यूनिट स्थान कार्यालय विवरण नीचे कि पदनाम कार्यालय विवरण नीचे कि पदनाम कार्यालय विवरण निकर्ण कार्यालय विवरण नीचे कि पदनाम कार्यालय विवरण नीचे कि पदनाम कार्यालय विवरण निकर्ण कार्यालय कार्या	Round Office Seal **Retail of Place Signature of the 1 bead of the Office of Ciritary Date Signature of the 1 bead of the Office of Ciritary Date Signature of the 1 bead of the Office of Ciritary Date Signature of the 1 bead of the Office of Ciritary Date Signature of the 1 bead of the Office of Ciritary Date Signature of the 1 bead of the Office of Ciritary Date Signature of the 1 bead of the Office of the Office of Ciritary Date Signature of the 1 bead of the Office stamp Signature of the 1 bead of the Office stamp Signature of the 1 bead of the Office stamp Signature of the 1 bead of the Office stamp Signature of the 1 bead of the 1 bead of Signature of Signature of the 1 bead of Signature of Signature of the 1 bead of Signature of Signatu							
Signature of the Head of the Office दिनांक / Date	Signature of the Head of the Office रिनांक / Date अधान (प्यं क्रिया संख्या Complete address and Telephone No. of Office रियान (प्रं क्रिया संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आको व शब्द में आनातरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं। (Name) (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under:- (त्रा.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम Rank / Designation त्रे / From त्रक / To Period of stay Order No & Date 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	स्थान / Place	Round Office Seal						
कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या Complete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अको य शब्द में थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं। (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to their, the details of which are given as under: (त्रात्वय / यूनिट स्थान स्थान स्थान प्रमाण विवरण कार्यालय / यूनिट स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान प्रमाण विवरण कार्यालय / यूनिट स्थान	कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाव संख्या Complete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद इस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आको व शब्द में थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है । (Name) (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to mother, the details of which are given as under:- (त्रात्य / यूनिट स्थान हेस / पदनाम हिम्स कार्यालय / यूनिट स्थान शब्द पदनाम हिम्स कार्यालय / यूनिट स्थान हिम्स कार्यालय / यूनिट स्थान कार्यलय / यूनिट	And the details of which are given as under: Complete address and Telephone No. of Office Telephone No. of	स्थान / Place						1000000 N 1 N 1 (N)
Complete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कंप्यंत्रिया प्रमाण — पत्र / करती हूँ पिछले सात साल (कंप्यंत्रिया पर मेरे (अको य शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to ther, the details of which are given as under: (स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेक / पदनाम हिम्मा हिम्म	Complete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (रैक / पदनाम (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (आको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to ther, the details of which are given as under: (स.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम कार्यालय / यूनिट स्थान Place Rank/ Designation से / From तक / To (तक / To	Templete address and Telephone No. of Office स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यातरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है (Name) (rank/ designation) (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to ther, the details of which are given as under: (स. कार्यालय / यूनिट स्थान Place Rank/Designation से/From तक/To (विनाक/Date उहरने की अवधि प्रमाण परितास संख्या Period of stay Order No & Date Period of stay Order No & Date (in the control of the co					With Name,	Designation and (Office stamp
स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (रैक / पदनाम (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है । (Name) (rank/ designation office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to ther, the details of which are given as under: (स. कार्यालय / यूनिट स्थान रॅक / पदनाम Rank/ Designation से / From तक / To Office/Unit Place Rank/ Designation से / From तक / To Period of stay Order No & Date (a) (a) (a) (a) (a) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (d) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (रैंक / पदनाम (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (1.3. 2016 तक) में एक स्थन से दूसरे स्थान पर मेरे (अंको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation of the past 7 years (up to the past 7	स्थानांतरण संख्या प्रमाण — पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS (नाम) (कर्णां (नाम) (कर्णं (पत्नाम) (कर्णं (प्रमाणेत करता / करती हूँ पिछले सात साल (अकी व शब्द में (अविम्)) (पत्नाम) (अविम्) (अ			-				(4)
(कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अंको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम Rank / Designation से / From तक / To Period of stay Order No & Date (a) Service of Service	(कार्यालय), एतद ह्रस प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to the continuous firms (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: (स. कार्यालय / यूनिट स्थान हें / पदनाम Rank/ Designation से / From तक / To Period of stay Order No & Date (a)	(कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to the details of which are given as under: (Tank/ designation to the details of which are given as under: (Tank/ designation to the details of which are given as under: (Tank/ designation to the details of which are given as under: (Tank/ designation to the details of which are given as under: (Tank/ designation to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: (Tank/ designation to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: (Tank/ designation to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the past 7 years (up to times (in figures & in words					- volument of	parts - anno sun a la sensa francis es.	
(कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अंको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to ther, the details of which are given as under interpret of the details of the details of the details of which are given as under interpret of the details of the d	(कार्यालय), एतद ह्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अको व शब्द में पानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to nother, the details of which are given as under: (स्तार कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम Rank/ Designation से / From तक / To Period of stay Order No & Date (a) (a) (b) (b) (c) (c) (d) (c) (c) (d) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	(कार्यालय), एतद द्वरा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल (अंको व शब्द में स्थान पर मेरे (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to the figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amate) (In figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amate) (In figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amate) (In figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amate) (In figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amate) (In figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amate) (In figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amate) (In figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words) from one station to the figures & in words in	स्थानातरण सं	ख्या प्रमाण	— पत्र / CERTI	FICATE OF	NUMBER	OF TRANSFERS	3
31.3. 2016 तक) में एक स्थन से दूसरे स्थान पर मेरे (अंको व शब्द में श्वानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amme) (rank/ designation (rank/ designation to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amme) (rank/ designation (rank/ designation to times (in figures & in words) from one station to times	31.3. 2016 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं ।	31.3. 2016 तक) मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंको य शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to nother, the details of which are given as under: 5.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम हिम्म हि	4		(नाम)			(रैंक / पदनाम
31.3. 2016 तक) में एक स्थन से दूसरे स्थान पर मेरे (अंको व शब्द में श्वानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amme) (rank/ designation (rank/ designation to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under :- (Amme) (rank/ designation (rank/ designation to times (in figures & in words) from one station to times	31.3. 2016 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंको व शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं ।	31.3. 2016 तक) मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंको य शब्द में धानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to nother, the details of which are given as under: 5.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम हिम्म हि			(कार्यालय)	एतद दश	प्रमाणित क	ता / करती हैं	पिछले सात साल
eui-nictor हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name)	euinintrol हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to nother, the details of which are given as under: (स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेक / पदनाम हिम्म कार्यालय / प्रानेट स्थान Rank / Designation से / From तक / To Period of stay Order No & Date (a)	euinintend हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं । (Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: (स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम (DDF MAN YY) (DDF MA			M 50 60		1000	50.500	
(Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: The details of which are given as under:	(Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to times (in figures & in words) from one station to the details of which are given as under: The details of which are given as under:	(Name) (rank/ designation (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to the figures & in words) from one station to the details of which are given as under:	11.3. 2016 तक) में एक स्थन से	दूसरे स्थान	पर मेरे				अको व शब्द में
.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रॅक / पदनाम DDV MMV YY DDV MWV YY DDV	.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम DDV MMV YY DDV MMV YY तक / To Period of stay Order No & Date	स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम DDI MMV YY DDI MMV YY Period of stay Order No & Date No. Office/Unit Place Rank / Designation से / From तक / To Period of stay Order No & Date						1.00	
ह.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम DDV MMV YY DDV MMV YY Period of stay Order No & Date No. Office/Unit Place Rank / Designation से / From तक / To 1	ह.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रेंक / पदनाम DD/ MM/ YY DD	उ.स. कार्यालय / यूनिट स्थान रॅक / पदनाम DDV MMV YY अवधि आविश अवदिश संख्या No. Office/Unit Place Rank / Deelgnation से / From तक / To Period of stay Order No & Date 3. अवधि अवधि अवधि अवधि Period of stay Order No & Date 3. अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि 4. अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि 5. अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि 6. अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि अवधि 8. अवधि <		E	(office), do	hereby o	certify that	during the pa	st 7 years (up t
CHE	No. Office/Unit Place Rank / Designation	No. Office/Unit Place Rank / Designation	f1.03.20 I have been transf	ferred	(office), do	hereby (certify that s (in figure	during the pa	st 7 years (up to
3.	2	2	f	ferred e given as	(office), do	time time	certify that s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की	st 7 years (up to
3.	3.	3	f	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up to om one station to आदेश संख्या
			f	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up to om one station to आदेश संख्या
			f	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up to om one station to आदेश संख्या
			f	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up to om one station to आदेश संख्या
			f	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up to om one station to आदेश संख्या
			f	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up to om one station to आदेश संख्या
			f	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up to om one station to आदेश संख्या
		6. 7.	ofI have been transf nother, the details of which are p.स. कार्यालय / यूनिट स .No. Office/Unit Pl	ferred e given as ਘਾਜ	(office), do	time दिनाक DDI MM/ YY	s (in figure	during the <u>pa</u> s & in words) fr ठहरने की अवधि	st 7 years (up om one station आदेश संख्या

Name:

	तिहस्तावर /Countersignature
ñ ————	(नाम) (रैंक / पदनाम)
	(कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त
वेवरण को कार्यालय – आलेखाँ से आँच लिय	या गया है व सही पाया गया है।
	(rank/designation
	(unit/department) hereby certify that the particulars given in above
have been authenticated by the records t	held in the office and found correct.
Round Office Sesi	कार्यालय अन्यक्ष के हस्ताक्षर (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सिहेत)
स्थान / Place	Signature of the Head of the Office
दिनांक/ Date	(With Name, Designation and Office sterno)
कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरमाथ संख्या	NO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Complete address and Telephone No. of Office टिप्पणि / Note-	
एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम	सह साम होती कारिक
	20 110 Ptu 411PA
Minimum period of posting/stay at a plac सेवा — कालीन मृत्यु	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE
Minimum period of posting/stay at a plac सेवा — कालीन मृत्यु	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE है कर्मचारियों के जिए / Only for Central Govt Employees)
Minimum period of posting/stay at a plac सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE है कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt Employees) स्वर्गीय
Minimum period of posting/stay at a place सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE कर्मचारियों के जिए / Only for Central Govt Employees) रवर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवास्त	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE है कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt Employees) स्वर्गीय
सेवा - कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विभाग) में नियमित रूप से सेवास्त	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE कर्मचारियों के जिए / Only for Central Govt Employees) रवर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवास्त	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE के कर्मचारियों के जिए / Only for Central Govt Employees) रवर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो वि / धी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक
Minimum period of posting/stay at a place सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवास्त को हो गया था । Certified that Master/Miss	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE के कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt Employees) री के पुत्र / पुत्री हैं जो धे / धी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक is the son/daughter of
Minimum period of posting/stay at a place सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा श्री / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवास्त को हो गया था । Certified that Master/Miss	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE के कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt Employees) रवर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो धे /धी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक is the son/daughter o who was regular employee of
सेवा - कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवास्त को हो गया था । Certified that Master/Miss	प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE के कर्मधारियों के जिए / Only for Central Govt Employees) रि कर्मधारियों के जिए / Only for Central Govt Employees) रवर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो हि थे / थी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक
संवा — कालीन मृत्यु (कंवल कंन्द्रीय सरकार व माणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । Certified that Master/Miss ate Sh./Smt Office/Department) and he/she died in h	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE कर्मचारियों के लिए / Only for Central Govt Employees) रि स्वर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो वे / धी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक is the son/daughter of who was regular employee of amess (while in service) on
सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । Certified that Master/Miss	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE कर्मचारियों के जिए / Only for Central Govt Employees) रि स्वर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो वे / थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अविच में दिनांक is the son/daughter of who was regular employee of
Minimum period of posting/stay at a place सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व ग्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा भी / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवारत को हो गया था । Certified that Master/Miss	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE कर्मचारियों के लिए /Only for Central Govt Employees) रि के पुत्र /पुत्री हैं जो चे /धी और जनका देहावसान सेवाकाल की अविव में दिनांक is the son/daughter o who was regular employee of
Minimum period of posting/stay at a place सेवा — कालीन मृत्यु (केवल केन्द्रीय सरकार व प्रमाणित किया जाता है कि कुमार / कुमा श्री / श्रीमती कार्यालय / विमाग) में नियमित रूप से सेवास्त को हो गया था । Certified that Master/Miss	प्रमाण—पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE कर्मचारियों के जिए / Only for Central Govt Employees) रि स्वर्गीय के पुत्र / पुत्री हैं जो वे / धी और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक is the son/daughter of who was regular employee of

जाँच सूची CHECK LIST

फॉर्म जमा करते समय निम्न दस्तावेज़ संलग्न करें Enclose the following documents while submitting this form

- 1. जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि Photocopy of Date of Birth Certificate
- 2. आवास प्रमाण पत्र Residence Certificate
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / दारिद्य रेखा
 से निम्न वर्ग / विकलांग / इकलौती कन्या का प्रमाण पत्र SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/
 Single Girl Child Certificate (if applicable)
- 4. रक्त समूह का प्रमाण पत्र Blood Group Certificate
- केन्द्रीय या राज्य सरकार कर्मचारी व केन्द्रीय सरकार उपक्रम के कर्मचारी अपने कार्यालय से जारी स्वयं का सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें Service Certificate issued by authority is to be enclosed by the Central / State Government / PSU employees.
- 6. अन्य / Other.

नोट NOTE:

1. आवासीय प्रमाण पत्र सभी को जमा करना आवश्यक है । Proof of residence shall have to be

produced by all the applicants.

 अभिभावक के द्वारा विद्यालय से आवास की दूरी का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र भी स्वीकृत किया जा सकता है । A Self declaration form from the parent for distance may also be accepted by furnishing an undertaking to this effect.